

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन सिटीजन्स अवॉर्ड्स अप्रतिम निवासियों को सम्मानित करते हैं

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (12 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, उन कम्युनिटी एथलीटों, वालंटियरों और लोकल हीरोज को सम्मानित करती है और उनका जशन मनाती है, जिन्होंने 2021 में अप्रतिम उपलब्धियां हासिल की हैं।

ब्रैम्पटन सिटीजन्स अवॉर्ड्स (Brampton Citizens Awards), उन निवासियों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने 2021 के कैलंडर वर्ष के दौरान अर्थपूर्ण योगदान दिया है या निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में खास उपलब्धि हासिल की है:

- [स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवॉर्ड \(Sports Achievement Award\)](#), ब्रैम्पटन के उन व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करता है, जिनकी स्पोर्ट्स में उपलब्धियों को प्रोविंसियल, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता मिली है।
- [केन गाइल्स ऐमचर एथलीट ऑफ द यीअर अवॉर्ड \(Ken Giles Amateur Athlete of the Year Award\)](#), उस खास व्यक्ति को दिया जाता है, जिसने अपनी संबंधित स्पोर्ट में गैर-पेशेवर लेवल पर महत्वपूर्ण असर डाला है और/या अप्रतिम उपलब्धि हासिल की है।
- [आर्ट्स अकलेम अवॉर्ड \(Arts Acclaim Award\)](#), कला से संबंधित उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है, जिनके योगदानों ने, लोकल, प्रोविंसियल, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सराहना हासिल करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण असर डाला है।
- [लॉन्ग टर्म सर्विस अवॉर्ड \(Long Term Service Award\)](#), उन समर्पित वालंटियरों को सम्मानित करता है, जिनके प्रयासों ने, रेक्रिएशनल स्पोर्ट्स, कला और कम्युनिटी सोशल सर्विसिज के विकास और उन्नति पर महत्वपूर्ण असर डाला है।
- [इंस्पिरेशनल अवॉर्ड \(Inspirational Award\)](#), ब्रैम्पटन के उन निवासियों को सम्मानित करता है, जो मनुष्य के हितों के लिए किए जाने वाले (मानव हितैषी) कार्यों की हिमायत करते हैं या खुद ऐसे काम करते हैं, या जिन्होंने दूसरों पर प्रेरणा देने वाला असर डाला है।
- [सिटीजन्स ऑफ द यीअर अवॉर्ड्स \(Citizens of the Year Awards\)](#), ब्रैम्पटन के हर उम्र के उन वालंटियरों को सम्मानित करता है, जिन्होंने 2021 में, जोशीली, समर्पित कम्युनिटी भागीदारी दर्शाई है।

सभी नामांकनों की समीक्षा, एक सलेक्शन कमेटी (Selection Committee) द्वारा की गई थी, जिसमें, अवॉर्ड श्रेणियों में विषय संबंधी विशेषज्ञता वाले कम्युनिटी मेम्बर्स के साथ-साथ, शहर के चुने हुए अफसर, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services), ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स अलाइंस (Brampton Sports Alliance), ब्रैम्पटन सीनियर्स काउंसिल (Brampton Seniors Council) और पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police) शामिल थे।

2021 के ब्रैम्पटन सिटीजन अवॉर्ड्स हासिल करने वालों को, 25 मई को रोज़ थिएटर (Rose Theatre) में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अवॉर्ड्स हासिल करने वाले सभी व्यक्तियों की सूची, [brampton.ca/citizensawards](http://brampton.ca/citizensawards) पर देखें।

**हवाले**

“ब्रैम्पटन सिटीजन्स अवॉर्ड्स हमें, अप्रतिम निवासियों, एथलीटों, कलाकारों, वालंटियरों और लोकल हीरो के तौर पर उनके योगदानों को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। उस प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद, जिसने नामांकन पेश किए हैं। ये अवॉर्ड्स गर्व करना सिखाते हैं, लोकल नागरिकों को उनके अर्थपूर्ण योगदानों के लिए मान्यता देते हैं और ब्रैम्पटन के प्रत्येक व्यक्ति को, हमारी कम्युनिटी को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“1974 से, ब्रैम्पटन सिटीजन्स अवॉर्ड्स के साथ हमारी कम्युनिटी में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने की पुरानी परंपरा रही है। हम, रोज़ थिएटर में उन निवासियों का जशन मनाने के लिए उत्साहित हैं, जिन्होंने 2021 में खास असर डाला है और निवासियों को सलाह देते हैं कि [brampton.ca/citizensawards](http://brampton.ca/citizensawards) पर उनके बारे में अधिक जानकारी पाएं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, सिटीजन्स अवॉर्ड्स कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के निवासी, रोजाना हमारी कम्युनिटी में बदलाव लाते हैं और सिटीजन्स अवॉर्ड्स हमें, उनके जोश और योगदानों को सम्मानित करने का अवसर प्रदान करते हैं। अवॉर्ड हासिल करने वाले सभी व्यक्तियों का, 2021 के दौरान अर्थपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कांफ़िडेंस सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन, जोशीले और प्रेरणादायक निवासियों से भरपूर है, जो हमारी कम्युनिटी में असली बदलाव लाते हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, हमारे 2021 के ब्रैम्पटन सिटीजन्स अवॉर्ड्स हासिल करने वालों के अप्रतिम योगदानों को सम्मानित करने पर गर्व है।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।



## Media Release

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रॅम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)